

प्रेषक,

सदा कान्त,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,  
समरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३

लखनऊ: दिनांक: २१ मार्च, २०१६

विषय: प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की परियोजनाओं हेतु भू-स्वामियों से भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के गठन के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु इन अभिकरणों का लैण्ड बैंक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जोकि वर्तमान में लगभग नगण्य है, जिसके फलस्वरूप नगरों में जन-सामान्य के लिए आवास की आपूर्ति एवं अवस्थापना विकास आशा अनुरूप नहीं हो पा रहा है। अभी तक इन अभिकरणों द्वारा अधिकांशत भू-अर्जन अधिनियम के अधीन भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर भू-अर्जन किया जाता रहा है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्ववर्त्तन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ के प्रवृत्त होने के पश्चात भूमि अर्जन की प्रक्रिया में और अधिक समय लगने की सम्भावनाएं हैं।

२— इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजस्व अनुभाग—१३, उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या—२/२०१५/२१५/एक—१३—२०१५—२०(४८)/२०११ दिनांक १९.०३.२०१५ द्वारा प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरण, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित परिषदों एवं प्रदेश में कार्यान्वयित होने वाली पब्लिक-प्राईवेट भागीदारी परियोजनाओं आदि के लिए भू-स्वामियों से सीधे भू-क्य किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति—२०१४ के अन्तर्गत भूमि जुटाव एवं प्रबन्धन हेतु किसानों से सीधे भूमि क्य व्यवस्था की अभिकल्पना भी की गयी है।

३— अतएव राजस्व अनुभाग—१३ के शासनादेश दिनांक १९.०३.२०१५ में वर्णित प्राविधानों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को भू-स्वामियों से सीधे भूमि क्य करने के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, १९७३ की धारा—४१(१) तथा उ०प्र०

आवास एवं विकास परिषद की धारा—92(2) में वर्णित प्राविधानों के अधीन निम्नानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायः—

- (1) विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भू—स्वामियों/कृषकों से, आपसी सहमति के आधार पर भूमि का क्य किया जायेगा। भूमि की दरों का अनुमोदन सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा:—

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)/जिला रजिस्ट्रार	सदस्य
3.	उपाध्यक्ष, प्राधिकरण/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
4.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी (परियोजना प्रशासक)	सदस्य
5.	नामित नोडल अधिकारी/सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार/उप महानिरीक्षक रटैम्प एवं निबंधन/सहायक महानिरीक्षक रटैम्प एवं निबंधन	सदस्य
6.	सचिव, विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त द्वारा नामित संयुक्त आवास आयुक्त से अंतिम स्तर के अधिकारी	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा सुविचारित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ—साथ समिति की बैठकों एवं कार्यवाहियों का संचालन किया जायेगा। समिति द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष भूमि क्य करने का प्रस्ताव/सन्दर्भ/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर क्य की जाने वाली भूमि की दर का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। समिति यह भी परीक्षण करेगी कि भूमि विवाद रहित एवं भार रहित है तथा यथाआवश्यक किसी भी विभाग/अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर सकेगी और यथाआवश्यक दर निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत तथ्यों की प्रति परीक्षा कर सकेगी।

- (2) उपरोक्तानुसार गठित समिति राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या—2/2015/215/एक—13—2015—20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में प्राविधानित निम्नलिखित मार्ग—दर्शी सिद्धान्तों के आधार पर क्य की जाने वाली भूमि की दर व कुल भूमि मूल्य (जिसमें भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य खड़ी फसलों, वृक्षों एवं सम्बन्धित अनुषांगिक व्यय) का अनुमोदन करेगी :—

- (i) उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, क्य किये जाने हेतु प्रस्तवित भूमि के आस—पास परियोजना प्रारम्भ होने अथवा परियोजना के अनुमोदन प्रदान किये जाने के दिनांक से 06 माह पूर्व के निष्पादित विक्रय विलेखों (बैनामों) में अंकित भूमि की दर तथा भारतीय रटाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत निर्धारित सर्किल दर।

- (ii) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य समिति द्वारा यथावश्यक परिसम्पत्तियों का आंकलन एवं मूल्य का निर्धारण सक्षम शासकीय विभागों से कराया जा सकेगा।
- (iii) क्य की जाने वाली भूमि का तत्काल कब्जा प्राप्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित भू-स्वामी की खड़ी फसलों, वृक्षों, सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण।
- (iv) क्य की जाने वाली भूमि की भवनिक/ऑद्योगिक क्षमता, आबादी से दूरी को ध्यान में रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि यथासम्भव काम्पेट आकार में हो पहुंच मार्ग की समुचित सुविधा उपलब्ध हो और विकास के लिए उपयुक्त हो।
- (v) यह स्पष्ट किया जाता कि क्य की जाने वाली भूमि की दर शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट जो भी अधिक हो, के दो गुने और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट जो भी अधिक हो, के चार गुने से अधिक नहीं होगी।
- (vi) सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप संख्या-1 पर भूमि क्य किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी एवं 15 दिन की समय सीमा के अन्तर्गत इसका परीक्षण कर लिया जायेगा। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।
- (3) क्य की जाने वाली भूमि की दर निर्धारित हो जाने के पश्चात प्रस्ताव में वह परियोजना जिसके लिए भूमि क्य किया जाना प्रस्तावित है, क्य की जाने वाली भूमि परिषद द्वारा बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। 10 एकड़ आवास एवं विकास परिषद द्वारा बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। 10 एकड़ भूमि क्य किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त, उ0प्र0 तक भूमि क्य किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अपेक्षित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। विकास परिषद द्वारा अपेक्षित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।
- (4) उपरोक्त प्रस्तर-(3) में उल्लिखित सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा राजस्व अधिकारियों के विकास विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा। यह से विक्य विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर स्थित जिन परिसम्पत्तियों के भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्य की गयी भूमि पर स्थित जिन परिसम्पत्तियों के सापेक्ष मूल्य का भुगतान भू-स्वामी/कृषक को किया गया है, उन्हें समुचित रूप से अभिलिखित करके उसके निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार की जाये तथा समय से भूमि का नामान्तरण विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने पक्ष में करा लिया जाये। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 दिनांक

- 11.02.2016 से लागू कर दी गयी है, जिसकी धारा-36 में अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जमा किये जाने के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन होने के पश्चात और अनुमोदित दर पर बैनामा निष्पादित कराये जाने से पूर्व यदि कलेक्टर द्वारा सर्किल दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी रिथति में दरों का पुनर्निधारण समिति द्वारा नये सर्किल रेट को आधार मानकर पुनः किया जायेगा।
- (6) समिति द्वारा विनिश्चित की गयी दरों एवं कुल भूमि मूल्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सहमति न होने की दशा में अथवा दरों पर भू-स्वामियों और विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के मध्य किसी विवाद अथवा समझौते के अनुपालन को लेकर कोई बिन्दु उत्पन्न होता है, तो “समिति” के समक्ष विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा निर्णय लेकर समाधान किया जायेगा और ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (7) बैनामा/विक्रय-विलेख निष्पादन के समय भू-स्वामी/विक्रेता को सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष देय भू-मूल्य/प्रतिकर की अनुमोदित धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली जमा किया जायेगा, जिसके सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख सम्बन्धित विक्रय-विलेख में किया जायेगा। ऐसे एकाउन्टपेई चेक की छायाप्रति को भी विक्रय-विलेख का अनिवार्य भाग बनाया जायेगा।
- (8) सम्बन्धित भूमि के विक्रय-विलेख के निष्पादन होने के 45 दिन की अवधि के अन्दर सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के तहसीलदार/प्रतिनिधि सम्यक पैरवी करते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय की गई भूमि का नामान्तरण भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-34 के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित ग्राम की उद्धरण खतौनी की अभिप्रमाणित खतौनी सम्बन्धित भूमि के क्रय निकाय के विक्रय-विलेख की पत्रावली पर रक्षित की जायेगी।
- (9) क्रय निकाय के भूलेख विभाग द्वारा क्रय की गयी भूमि की सूचना क्रय निकाय के परियोजना तथा नियोजन विभाग को अनिवार्य रूप से दी जायेगी, ताकि उपरोक्त दोनों विभाग प्रश्नगत भूमि के क्रमशः नियोजन एवं विकास हेतु यथावश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकें।
- (10) भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर सीधे भूमि क्रय करने के प्रयास विफल रहने की दशा में विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिनियम, 2013 सुसंगत मैनुअल के प्राविधानों और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (11) चूंकि क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का निर्धारण सभी सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों/अधिनियमों का संज्ञान लेते हुए किया गया है। अतः

भू-स्वामियों को राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 17.08.2010, 03.09.2010 एवं 02.06.2011 तथा वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम में अनुमन्य पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लाभ पृथक से अनुमन्य नहीं होंगे।

- (12) पूर्व में अधिग्रहण की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रस्तावित ऐसी समर्त योजनाएं जिनमें अब तक कोई अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है उनमें भी योजना की आवश्यकता के दृष्टिगत भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर इस शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप भूमि क्य किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।  
कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
सदा कान्त  
प्रमुख सचिव

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समर्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समर्त मण्डलायुक्त/समर्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ०प्र०।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।
5. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि आवास बन्धु की वेबसाईट पर अपलोड कर सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समर्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आशा  
जे०प० सिंह  
संयुक्त सचिव